

रजस्ट्री मॉ डी० एल० ३३००४ ९९

REGD. NO. D.L-33004 99



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

मं. 60]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 14, 2007/फाल्गुन 23, 1928

No. 60]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 14, 2007/PHALGUNA 23, 1928

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2007

मं. एल-7/25(5)/2003-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का और इस नियमन समर्थकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिक के निवंधन और शर्तें) विनियम, 2004, जिसे इसमें इसके पश्चात्, “मूल विनियम” कहा गया है, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अधारतः—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिक के निवंधन और शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2007 है।

(2) ये विनियम 1-4-2007 से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 16 का संशोधन.—मूल विनियम के विनियम 16 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अधारतः—

“16. प्रचालन के संनियम.—प्रचालन के संनियम जो नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित को लागू होंगे—

(i) पूर्ण क्षमता (नियत) प्रभारों की वसूली के लिए लक्ष्य उपलब्धता—

(क) नीचे खण्ड (ख) के अधीन आने वाले स्टेशनों के सिवाय सभी ताप ऊर्जा उत्पादन केंद्र — 80 %

(ख) नवली टिग्नाइट कारपोरेशन लि. के ताप ऊर्जा — 75 %

उत्पादन केंद्र (टी पी एम-1, टी पी एम-2, प्रक्रम 1 और 2 और टी पी एम-1 विस्तारण) और एन टी पी सी लि. के तलचर ताप ऊर्जा केंद्र

टिप्पणी :

लक्ष्य उपलब्धता के स्तर के नीचे की क्षमता (नियत) प्रभारों की वसूली आनुसारिक आधार पर को जाएगी। शून्य उपलब्धता पर, हाँ ही भी क्षमता दिया जाएगी।

(ii) प्रांत्याहन के लिए लक्ष्य मंत्र भार कारक—

(क) नीचे खण्ड (ख) के अधीन आने वाले केंद्रों के मिशन सभी ताप उत्पादन केंद्र — 80 %

(ख) नवेली लिमाइट कारपोरेशन लि. के ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्र (टी पी एस-I, टी पी एस-II, प्रक्रम 1 और 2 विस्तरण) तथा एन टी पी सी लि. के तलचर ताप ऊर्जा केन्द्र

(iii) सकल केन्द्र हीट दर-

(क) नीचे खण्ड (ख) और (ग) में दिए गए केन्द्रों के सिवाय कोयला आधारित ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्र

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 200/210/250 मेगावाट सेट | 500 मेगावाट और उससे ऊपर के सेट |
| स्थिरीकरण अवधि के दौरान | 2550 कि. किलोवाट घंटा |
| पश्चात्वर्ती अवधि | 2450 कि. किलोवाट घंटा |

टिप्पण 1 :

500 मेगावाट और उससे ऊपर के यूनिटों के संबंध में, जहाँ बायलर फाईड पम्प विद्युत से प्रचालित किए जाते हैं वहाँ कुल उत्पादन ताप दर उपरोक्त उपर्युक्त उत्पादन ताप दर, में 40 कि. किलोवाट घंटा कम होगी।

टिप्पण 2 :

ऐसे उत्पादन केन्द्रों के लिए, जिनके पास 200/210/250 मेगावाट सेट और 500 मेगावाट और उससे ऊपर के सेट का संयोजन है, मानकीय मकल उत्पादन केन्द्र ताप दर, भारित औसत उत्पादन केन्द्र ताप दर होगी।

| | |
|---|-----------------------|
| (ख) तलचर ताप ऊर्जा केन्द्र | 3100 कि. किलोवाट घंटा |
| (ग) टांडा ताप ऊर्जा केन्द्र | 2850 कि. किलोवाट घंटा |
| (घ) लिमाइट से चलने वाले तापीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्र | |
| (1) कोयला आधारित ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों के लिए, ऊपर खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट मकल उत्पादन केन्द्र ताप की दरें नवेली लिमाइट कारपोरेशन लिमिटेड के टीपीएस-I और टीपीएस-II (प्रक्रम 1 और 2) के सिवाय नीचे दिए गए गुणककारकों का उपयोग करते हुए, संशोधित की जाएंगी :— | |
| (i) 50 प्रतिशत आद्रिता वाली लिमाइट के लिए : 1.10 का गुणनकारक; | |
| (ii) 40 प्रतिशत आद्रिता वाली लिमाइट के लिए : 1.07 का गुणनकारक; | |
| (iii) 30 प्रतिशत आद्रिता वाली लिमाइट के लिए : 1.04 का गुणनकारक ; | |
| (iv) आद्रिता अंतर्वर्ष में अन्य मूल्यों के लिए गुणककारक उपरोक्त उप-खंड (i) से खंड (iii) में दी गई अपनी-अपनी रेंज के लिए गुणककारक के रेटेड मूल्यों पर निर्भर रहते हुए, 30-40 और 40-50 की बीच की आद्रिता अंतर्वर्ष में अनुपात में निर्धारित की जाएगी। | |
| (2) नवेली लिमाइट कारपोरेशन लिमिटेड के टीपीएस-I और टीपीएस-II : | |
| टीपीएस-I | 3900 कि. किलोवाट घंटा |
| टीपीएस-II | 2850 कि. किलोवाट घंटा |

(ङ) गैस टर्बाइन संयुक्त आवर्तन ऊर्जा उत्पादन केन्द्र—

(1) एनटीपीसी लि. के स्वामित्वाधीन विद्यमान उत्पादन केन्द्र

| उत्पादन केन्द्र का नाम | संयुक्त आवर्तन (साइकिल) (कि. किलोवाट) | खुला आवर्तन (कि. किलोवाट) |
|------------------------|--|------------------------------|
| गंधर जी पी एस | 2000 | 2900 |
| कवास जी पी एस | 2075 | 3010 |
| अन्ता जी पी एस | 2075 | 3010 |
| यादगी जी पी एस | 2075 | 3010 |
| ओरेया जी पी एस | 2100 | 3045 |
| फर्मियाद जी पी एस | 2090 | 2900 |
| कलामकुलम जी पी एस | 2090 | 2900 |

(ii) 1-4-2004 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित उत्पादन केन्द्र

| उनत श्रेणी मशीन | ई/ईए/ईसी/ई2 श्रेणी मशीन |
|-------------------------------|---|
| खुला आवर्तन संयुक्त आवर्तन | 2685 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा 1850 कि. कैलोरी/ किलोवाट घंटा |
| | 2830 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा 1950 कि. कैलोरी/ किलोवाट घंटा |

(iii) लघु गैस टर्बाइन ऊर्जा उत्पादन केन्द्र :

(क) असम गैस आधारित ऊर्जा केन्द्र, कैथलगुड़ी :

| | |
|----------------|--------------------------------|
| खुला आवर्तन | - 3225 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा |
| संयुक्त आवर्तन | - 2250 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा |

(ख) अगरतला गैस आधारित ऊर्जा केन्द्र, रामचन्द्रनगर

| | |
|-------------|--------------------------------|
| खुला आवर्तन | - 3580 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा |
|-------------|--------------------------------|

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) को छोड़कर

| प्राकृतिक गैस सहित | दब ईंधन सहित |
|-------------------------------|--|
| खुला आवर्तन संयुक्त आवर्तन | - 3125 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा - 2030 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा |
| | 1.02 × 3125 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा 1.02 × 2030 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा |

(iv) गौण ईंधन तेल खपत

(क) कोयला आधारित उत्पादन केन्द्र :

(i) नीचे खण्ड (ii) के अधीन आने वाले केन्द्रों के सिवाय सभी कोयला आधारित ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्र

स्थिरीकरण अवधि के दौरान

4.5 मि.ली./किलोवाट घंटा

पश्चात्कर्ती अवधि

2.0 मि. ली./किलोवाट घंटा

(ii) तलचर ताप ऊर्जा केन्द्र

3.5 मि.ली./किलोवाट घंटा

(ख) लिंगाइट आधारित ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्र

स्थिरीकरण अवधि के दौरान

3.0 मि.ली./किलोवाट घंटा

पश्चात्कर्ती अवधि

3.0 मि. ली./किलोवाट घंटा

(v) अतिरिक्त ऊर्जा खपत

(क) कोयला आधारित उत्पादन केन्द्र :

| शीतलन (कूलिंग) टावर सहित | शीतलन (कूलिंग) टावर के बिना |
|-----------------------------|--------------------------------|
|-----------------------------|--------------------------------|

(i) 200 मंगावाट शृंखला 9.0%

8.5%

(ii) 500 मंगावाट शृंखला

भाप चालित वायलर फोड पम्प

7.5%

विद्युत चालित वायलर फोड पम्प

9.0%

(iii) तलचर ताप ऊर्जा केन्द्र

11.0%

(iv) टांडा ताप ऊर्जा केन्द्र

12.0%

(ख) गैस टर्बाइन संयुक्त आवर्तन उत्पादन केन्द्र :

(i) संयुक्त आवर्तन 3.0%

(ii) खुला आवर्तन 1.0%

(ग) लिंगाइट आधारित ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्र :

(i) नीचे लिंगाइट कार्यपालक टिर्मिटेड के टीसीएस-1 और टीसीएस-2 (प्रक्रम I और II) के सिवाय सभी उत्पादन केन्द्र :

उपरोक्त (v) (क) (i) और (ii) पर कोयला आधारित उत्पादन केंद्र के सहायक ऊर्जा खपत संनियम का प्रतिशतता किन्तु अतिरिक्त ऊर्जा खपत संनियम में अधिक 0.5 होगा।

(ii) नवेलो लिम्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के टीरीएस-1 और टीरीएस-11 प्रक्रम I और II :

| | |
|-------------|-------|
| पी टी एस-1 | 12.0% |
| टी पी एस-11 | 10.0% |

टिप्पण :

स्थिरीकरण अवधि के दौरान, मानकीय अतिरिक्त खपत ऊपर खंड - क), (ख) और (ग) में उपर्युक्त संनियमों में अधिक 0.5% तक मानी जाएगी।

(vi) स्थिरीकरण अवधि

युनिट के संबंध में उस युनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से प्रारंभ होने वालो स्थिरीकरण अवधि निम्नानुसार मानी जाएगी।

अथवा :-

| | |
|---|---------|
| (क) कोयला आधारित और लिम्नाइट चालित उत्पादन केंद्र | 180 दिन |
| (ख) गेस टर्बाइन संयुक्त आवर्तन उत्पादन केंद्र | 90 दिन |

टिप्पण :

स्थिरीकरण अवधि और स्थिरीकरण अवधि के दौरान लागू शिक्षित संनियम 1-4-2006 से लागू न होंगे।"

के. प.स. ढोंगरा, प्रमुख (विधि)

[विज्ञापन III-IV, 150/2006/असा]

पाद टिप्पण :

मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खंड 4 में तारीख 29-3-2004 को अधिसूचित किए गए थे और समय समय पर निम्नानुसार संशोधित किए गए थे :

(i) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4, तारीख 9-9-2004 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोज (ट्रैक के निवंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2004।

(ii) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4, तारीख 25-8-2005 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोज (ट्रैक के निवंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2005।

(iii) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4, तारीख 8-6-2006 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोज (ट्रैक के निवंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2006।